

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

शुद्धि पत्र

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-57634 दिनांक 17.08.2017 द्वारा संसूचित तुलनात्मक ड्राफ्ट के माध्यम से दर्शायी गयी अशुद्धियों के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-7 / स्था0-04-14 / 2016सा0प्र0-7402 दिनांक 16.06.2017 द्वारा अधिसूचित बिहार जूडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स, 2017 को निम्नवत् संशोधित रूप में पढ़ा जाय:-

Rule 3.3 में **or act otherwise** के स्थान पर **or otherwise** पढ़ा जाय।

Rule 6.1 में **movement of activity.** के स्थान पर **movement or activity.** पढ़ा जाय।

Rule 9.2 में **his duties.** के स्थान पर **his duties-** पढ़ा जाय।

Rule 11.1 में **the previous,** के स्थान पर **the previous** पढ़ा जाय।

Rule 14. के Explanation में **free boarding free lodging** के स्थान पर **free boarding, free lodging** एवं **does not included** के स्थान पर **does not include** पढ़ा जाय।

Rule 14.4 में **In any other case** के स्थान पर **In any other case,** पढ़ा जाय।

Rule 14.5 में **Notwithstanding anything contained in sub-rule** के स्थान पर **Notwithstanding anything contained in sub-rules** पढ़ा जाय।

Rule 15.1(i) में **retirement or transfer of** के स्थान पर **retirement or transfer or of** पढ़ा जाय।

Rule 16 (1) में **the High Court engage** के स्थान पर **the High Court, engage** पढ़ा जाय।

Rule 17(4) में **at interest to any person.** के स्थान पर **at interest to any person;** पढ़ा जाय।

Rule 17.5(i)(a) में **to or with any person of firm or** के स्थान पर **to or with any person or firm or** पढ़ा जाय।

Rule 17.5(i)(b) में **Provided that a Judicial Officer may, give to accept** के स्थान पर **Provided that a Judicial Officer may, give to, accept** एवं **an advance of pay to his private employee.** के स्थान पर **an advance of pay to his private employee:** पढ़ा जाय।

Rule 17.5(ii) में **in the foregoing sub-rule and** के स्थान पर **in the foregoing sub-rule, and** पढ़ा जाय।

Rule 18 (a) में **Advocates, Gown.** के स्थान पर **Advocates' Gown.** पढ़ा जाय।

Rule 20 (b) में **neme of any other person;** के स्थान पर **name of any other person;** पढ़ा जाय।

Rule 20 (2) में **Explanation**; के स्थान पर **Explanation**: पढ़ा जाय।

Rule 20 (3) में **each transaction of** के स्थान पर **each transaction or** पढ़ा जाय।

Rule 20 (4) में **statement shall if** के स्थान पर **statement shall, if** पढ़ा जाय।

Rule 20 (6) में **this behalf may by** के स्थान पर **this behalf may, by** पढ़ा जाय।

Rule 21 (c) में **foreign Government foreign** के स्थान पर **foreign Government, foreign** पढ़ा जाय।

Rule 25 (i) में **other party to the marriage or** के स्थान पर **other party to the marriage; or** पढ़ा जाय।

Rule 28 (1) में **The Bihar Government Servant's Conduct Rules, 1976 (hereinafter referred to as the said Rules) are** के स्थान पर **The Bihar Government Servant's Conduct Rules, 1976 (hereinafter referred to as the said Rules), are** पढ़ा जाय।

Rule 28 (a) में **the previous operation or** के स्थान पर **the previous operation, or** पढ़ा जाय।

अधिसूचना में अंकित शेष बिन्दुएँ यथावत रहेगी।

अधिसूचना संख्या-7/स्था0-04-14/2016सा0प्र0-7402 दिनांक 16.06.2017

को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

ह0/-

(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-06/2017सा0प्र0 ...../पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-06/2017सा0प्र0 14064...../पटना-15, दिनांक...08-11-17

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं आई0सी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) 4.11.17

सरकार के अवर सचिव।